

चेतावनी धोखाधड़ी से सावधान!

कॉर्पोरेट भर्ती में धोखाधड़ी के मामले पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत से जालसाज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों में आकर्षक नौकरी दिलवाने का लालच दे कर भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। पहले यह धोखेबाज़, निर्दोष लोगों का विश्वास जीतते हैं और फिर उन्हें फर्जी साक्षात्कार और नियुक्ति का प्रलोभन दे कर एक निर्दिष्ट बैंक खाते में पैसा जमा कराने को कहते हैं।

जालसाज़ कैसे लोगों को फंसते हैं: पहले नौकरी दिलाने के नाम पर छोटी रकम मांगी जाती है ताकि पीड़ित सतर्क न हो जाए।

- एक बार पीड़ित के पैसा जमा कराने के बाद, धोखेबाज साक्षात्कार या नियुक्ति के नाम पर रकम की मांग धीरे-धीरे बढ़ाता जाता है।
- कई बार स्टार्ट-अप किट या कंपनी का लैपटॉप देने के बहाने, बड़ी रकम की मांग की जाती है।
- पैसे के अलावा, ये धोखेबाज आवेदकों की व्यक्तिगत जानकारी भी मांग रहे हैं। यह व्यक्तिगत डेटा बाद में बाजार में बेच दिया जाता है।

इस चेतावनी के माध्यम से हम सभी संभावित नौकरी चाहने वालों को सावधान करना चाहते हैं। ध्यान रखें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या इसकी समूह कंपनियां नौकरी देने की प्रक्रिया में निम्न काम नहीं करती-

- रोजगार का ऑफर, इंटरव्यू या स्टार्ट-अप किट देने के लिए कंपनी कोई पैसा या जमा राशि नहीं लेती, उदाहरण के लिए लैपटॉप, वर्दी, सुरक्षा जमा राशि या कोविड टेस्ट के लिए कोई राशि नहीं ली जाती।
- रोजगार देने या किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान करने के लिए कंपनी ने किसी एजेंट या एजेंसी को नियुक्त नहीं किया है।
- कंपनी व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीवी को व्हाट्सएप या किसी ऑनलाइन फॉर्म में भरकर साझा करने के लिए नहीं कहती।
- सभी आधिकारिक मेल "@ril.com" या "@jjobp.com" के साथ समाप्त होने वाले ईमेल पते का उपयोग करके ही किया जाता है। व्यक्तिगत ईमेल आईडी जैसे जीमेल, याहू, हॉटमेल, आउटलुक आदि का उपयोग नहीं किया जाता।
- कंपनी ऐसी कोई नौकरी नहीं देती, जिसमें एसएमएस करने की जरूरत हो।

रोजगार चाहने वाला व्यक्ति अगर किसी फर्जी एजेंसी, रोजगार पोर्टल या एजेंट के जाल में फंसता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी।

ऑफर लेटर की प्रामाणिकता को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिटेल या जियो की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी सत्यापित किया जा सकता है।

यदि फर्जी नामांकन या ऑफर से संबंधित कोई भी संदिग्ध गतिविधि का पता चले तो इसकी सूचना तुरंत हमारे, हेड - फ्रॉन्ट एंड मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेशन को recruitment.fraud@ril.com पर दें।